

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 1981/माघ 14, 1902
No. 35] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 1981/MAGHA 14, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं० 13-ईटीसी (पी एन)/81

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1981

निर्यात व्यापार नियन्त्रण

विषय :—काटन लिस्टर्स की निर्यात नीति।

सि० सं० 38/12/80-ई० II.— उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियन्त्रण) संशोधन
प्रादेश सं० ई (सी) ओ, 1977/ ए एम (195) दिनांक 3 फरवरी, 1981 की ओर ध्यान
दिलाया जाता है।

2. यह निश्चय किया गया है कि "काटन लिस्टर्स" के निर्यात की अनुमति पहले
आएँ से पहले पाएँ आधार पर उच्चतम निर्धारित सीमा के भीतर दी जाएँ।

3. तबनुसार निर्यात नीति पुस्तक 1980-81 के अंक 26 पर नीति विवरण में क्रम सं० 98 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :—

अनुसूची I के भाग 'अ' के अनुसार क्रम संख्या	वस्तु का विवरण	साइसेस प्रदान करने की नीति
99	काटन लिन्टर्स	निर्यात की अनुमति उच्चतम निर्धारित सीमा के भीतर पहले आवेदन को पहले पाए आधार पर दी जाएगी।

मणिनारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 13-ETC(PN)/81

New Delhi, the 3rd February, 1981

EXPORT TRADE CONTROL

SUBJECT : Export policy of Cotton Linters.

File No. 38/12/80-EH.—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(195) dated the 3rd February, 1981, on the above subject.

It has been decided to allow export of "Cotton Linters" within a limited ceiling on first come, first-serve basis.

Accordingly, the following entry shall be made in the policy statement at page 26 of the Export Policy Book, 1980-81 after the existing entry at S. No. 98 :—

S.No. as in part 'B' of Schedule I	Description of the item	Licensing policy
99.	Cotton Linters	Export will be allowed within a limited ceiling on first-come first-served basis.

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports and Exports